



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 17 अक्टूबर, 2022

आश्विन 25, 1944 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

नगर विकास अनुभाग-1

संख्या 3159/9-1-2022-5 परि०-22

लखनऊ, 17 अक्टूबर, 2022

अधिसूचना

प०आ०-710

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 11-ख के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचना संख्या 1286/9-1-2022-5 परि०-22, दिनांक 30 जून, 2022 द्वारा गजट में प्रकाशित आदेश के अनुसरण में प्राप्त आपत्तियों पर विचार करने के पश्चात् नगर पालिका परिषद सरसावां, जिला सहारनपुर के नगर निकाय क्षेत्र को नीचे अनुसूची के स्तम्भ-2 में यथा उल्लिखित 25 वार्डों में विभाजित करती हैं। प्रत्येक वार्ड का विस्तार ऐसा होगा, जैसा उक्त अनुसूची के स्तम्भ-3 में उसके समक्ष उल्लिखित है।

अनुसूची

नगर पालिका परिषद सरसावां, जिला सहारनपुर

कक्ष सं०	कक्ष का नाम	कक्ष की सीमायें
1	2	3
1	महादेव नगर पूर्वी	उत्तर-तालाब के आखरी छोर से अनुज मेडिकल तक का दक्षिणी भाग दक्षिण-वाल्मिकी बीजाराम की गली से सरकारी गोदाम का उत्तरी भाग पश्चिम-प्रभू मार्किट से बीजाराम वाल्मिकी की गली का पूर्वी भाग पूर्व-मंगतराम के मकान का पश्चिमी भाग
2	महादेव नगर मध्य पूर्वी	उत्तर-माता वाली पुलिया से होली चौक सहारनपुर रोड का दक्षिणी भाग दक्षिण-जनक की दुकान से प्रदीप के मकान तक का उत्तरी भाग पश्चिम-होली चौक से जनक की दुकान तक का पूर्वी भाग पूर्व-माता वाली पुलिया से प्रदीप के मकान तक का पश्चिम भाग

कक्ष सं०	कक्ष का नाम	कक्ष की सीमायें
1	2	3
3	अम्बेडकर नगर उत्तरी पूर्वी	उत्तर-प्रेम खन्ना के मकान से मंजूर धोबी के मकान तक का दक्षिणी भाग दक्षिण-राव इनाम के मकान से इनाम के मकान तक उत्तरी भाग पश्चिम-डा० बलबीर की दुकान से हाफिज सिपाई के मकान तक पूर्वी भाग पूरब-फत्तू के घर से सुभाष वाल्मिकी के मकान तक रविदास धर्मशाला तक पश्चिम भाग
4	अम्बेडकर नगर दक्षिण	उत्तर-रविदास मन्दिर से मोल्हू के मकान तक का दक्षिणी भाग दक्षिण-बनखण्डी का उत्तरी भाग पश्चिम-चन्द्रभान के मकान हरिजन चौक होते हुए वार्ड 1 का पूर्वी भाग पूरब- बनखण्डी से रविदास मन्दिर नकुड रोड का पश्चिमी भाग
5	बाजार दक्षिण	उत्तर- माता वाली पुलिया से श्यामलाल नगर का दक्षिणी भाग दक्षिण-ओशोधाम से झन्डू के मकान से होते हुए पालिका पम्प 2 का उत्तरी भाग पश्चिम-माता वाली पुलिया पम्प नं० 2 तक का पूर्वी भाग पूरब-श्यामलाल नगर, ब्रह्मकुमारी आश्रम से होते हुए ओशोधाम तक का पश्चिम भाग
6.	महादेव नगर दक्षिण	उत्तर-सैदपुरा चौक से सैदपुरा तिराहा का दक्षिणी भाग दक्षिण- नकुड रोड से नाथीराम के घर तक उत्तरी भाग पश्चिम- नकुड रोड से सैदपुरा तिराहा का पूर्वी भाग पूरब-सैदपुरा चौक से नकुड रोड का पश्चिमी भाग
7.	महादेव नगर पश्चिम	उत्तर- मस्जिद की दुकान से सतीश महेश्वरी के मकान का दक्षिणी भाग दक्षिण- अमरनाथ बढई के मकान होते हुए शब्बीर के मकान को होते हुए वाल्मिकी मन्दिर का उत्तरी भाग पश्चिम- सतीश महेश्वरी के मकान से अमरनाथ बढई के मकान का पूर्वी भाग पूरब- मस्जिद की दुकान से होते हुए वाल्मिकी मन्दिर का पश्चिम भाग
8.	अम्बेडकर नगर पश्चिम	उत्तर-सरकारी समिति से राव फारुख की दुकान तक का दक्षिणी भाग दक्षिण-युसुफ अंसारी के मकान न्यू एम०टी०एस० स्कूल तक का उत्तरी भाग पश्चिम-सहकारी समिति से युसुफ अंसारी के मकान तक का पूर्वी भाग पूरब- राव फारुख की दुकान से न्यू एम०टी० स्कूल तक का पश्चिम भाग
9.	बाजार पूर्वी	उत्तर-कवरपाल की दुकानों से सावरिया कालोनी तक का दक्षिणी भाग दक्षिण-बाला जी कालोनी से रेलवे रोड तिराहे तक का उत्तरी भाग पश्चिम- रेलवे रोड तिराहा से कवरपाल की दुकानों तक का पूर्वी भाग पूरब-सावरिया कालोनी से बाला जी कालोनी तक का पश्चिम भाग
10.	बाजार मध्य	उत्तर- रमन चौहान के मकान से खाले की पुलिया तक का दक्षिणी भाग दक्षिण- राजू की दुकान से अशोक माहेश्वरी की दुकान से होते हुए राजकुमार सैनी की दुकान तक का उत्तरी भाग पश्चिम- अशोक माहेश्वरी की दुकान से राजकुमार की दुकान से होते हुए खाले की पुलिया का पूर्वी भाग पूरब- राजू की दुकान से कालडा बेकरी को होते हुए मंगू राम के मकान से होते रमन चौहान के मकान तक का पश्चिमी भाग
11.	बाजार पश्चिम	उत्तर- शमशान घाट मार्ग के आखरी छोर से मन्दिर तक का दक्षिणी भाग दक्षिण-सरकारी अस्पताल बस स्टैण्ड से विशाल की चक्की तक का उत्तरी भाग पश्चिम-विशाल की चक्की से चंदरूप सैनी के मकान से होते हुए मन्दिर तक का पूर्वी भाग पूरब-बस स्टैण्ड अम्बाला रोड से सिनेमा रोड को होते हुए शमशान घाट का पश्चिम भाग

कक्ष सं०	कक्ष का नाम	कक्ष की सीमायें
1	2	3
12.	गोविन्द नगर उत्तरी	उत्तर—आशाराम जैन के बाग से सिरोही पैलेस का दक्षिणी भाग दक्षिण—हजारा रोड से खाला से होते हुए नई बस्ती से हजारा चौक का उत्तरी भाग पश्चिम—हजारा रोड खाला से होते हुए सिरोही पैलेस का पूर्वी भाग पूरब—हजारा चौक से शाहजी का मकान से होते हुए आशाराम जैन बाग का पश्चिमी भाग
13	उत्तम विहार	उत्तर— सलीम के मकान से रिखीराम के मकान तक का दक्षिणी भाग दक्षिण— संजय के मकान से अमरनाथ बढई के मकान तक का उत्तरी भाग पश्चिम—संजय के मकान से रिखीराम के मकान तक का पूर्वी भाग पूरब— अमरनाथ बढई के मकान से सलीम की दुकान का पश्चिमी भाग
14	बाजार मध्य पूर्वी	उत्तर—लक्ष्मण की दुकान से नकुड रोड तक का दक्षिण भाग दक्षिण—पठानों के कुँए से महेन्द्र की दुकान तक का उत्तरी भाग पश्चिम— लक्ष्मण की दुकान से पठानों के कुँए तक का पूर्वी भाग पूरब— महेन्द्र की दुकान से थाने के कोने तक का पश्चिमी भाग
15.	मिरधान पश्चिम	उत्तर— रेल्लू के मकान से लिल्लू के मकान तक का दक्षिणी भाग दक्षिण— रेल्लू के मकान से रायपुर रोड होते हुए पालिका पम्प के रास्ते का उत्तरी भाग पश्चिम— रेल्लू के मकान का उत्तरी भाग से टील्ला रायपुर रोड तक का पूर्वी भाग पूरब— पालिका पम्प के रास्ते से लिल्लू के मकान तक का पश्चिमी भाग
16	बाजार म०द०	उत्तर—शमशान घाट रोड से पूरब में विविधनगर कालोनी तक का दक्षिणी भाग दक्षिण— डी०सी० जैन स्कूल के कोने से शिवराम के मकान तक का उत्तरी भाग पश्चिम— डी०सी० जैन स्कूल के कोने से शमशान घाट तक का पूर्वी भाग पूरब— शिवराम के मकान से विविधनगर कालोनी तक का पश्चिमी भाग
17	बाजार द०प०	उत्तर—ट्रासफार्मर से जैन अतिथि भवन रोड के तिराहे तक का दक्षिणी भाग दक्षिण—रमेश प्रजापति के मकान से कृष्ण के मकान से होते हुए दिनेश जैन की दुकान तक का उत्तरी भाग पश्चिम— रमेश प्रजापति के मकान से होते हुए मदन की दुकान से होते ट्रासफार्मर के चौराहे का पूर्वी भाग पूरब— दिनेश जैन की दुकान से जैन अतिथि भवन तिराहे तक का पश्चिमी भाग
18	प्रगति विहार	उत्तर— कुरैशी रोड से असगर छज्जू के मकान तक का दक्षिणी भाग दक्षिण— नाथीराम गडरिया के मकान से असगर छज्जू के मकान तक का उत्तरी भाग पश्चिम— असगर छज्जू के मकान से टील्ला रोड का पूर्वी भाग पूरब— पालिका पम्प रोड से होते हुए राव फारुख की दुकान से कुरैशी रोड तिराहा तक का पश्चिमी भाग
19.	कानूनगोयान	उत्तर— आत्माराम के मकान से होते हुए आर्यसमाज मन्दिर तक का दक्षिणी भाग दक्षिण— नाजार के मकान से चौराहे से होते हुए पूर्व कान्या पाठशाला का उत्तरी भाग पश्चिम— आत्माराम के मकान नाजार के मकान तक का पूर्वी भाग पूरब— पूर्व कान्या पाठशाला से फिरोजीलाल के मकान तक का पश्चिमी भाग
20	हजारा	उत्तर— जामा मस्जिद चौक से हजारा रोड खाले तक का दक्षिणी भाग दक्षिण— टील्ला रोड से पूरब से टील्ला रोड से धौलापडा मौलवी तक का उत्तरी भाग पश्चिम—धौलापडा मौलवी वाली गली के उत्तरी भाग से खाले तक का पूर्वी भाग पूरब— जामा मस्जिद चौक से कोट टील्ला रोड के दक्षिणी भाग तक का पश्चिमी भाग

कक्ष सं०	कक्ष का नाम	कक्ष की सीमायें
1	2	3
21	मिरधान पूर्वी	उत्तर— पूर्व कन्या पाठशाला चौक से कुरैशी तिराहे तक का दक्षिणी भाग दक्षिण— राव फारुख की दुकान से कुरैशी रोड तिराहा का उत्तरी भाग पश्चिम— राव फारुख की दुकान से कुरैशी रोड तिराहे तक का पूर्वी भाग पूरब— हरिजनान तिराहे से पूर्व कन्या पाठशाला तिराहे तक का पश्चिमी भाग
22	गोविन्द नगर दक्षिण	उत्तर— अम्बाला रोड ट्रांसफार्मर से हजारा रोड तिराहा तक का दक्षिणी भाग दक्षिण— कश्मीरीलाल के घर से हजारा चौक तक का उत्तरी भाग पश्चिम—हजारा चौक से अम्बाला रोड का पूर्वी भाग पूरब—कश्मीरीलाल के घर से अम्बाला रोड ट्रांसफार्मर तक का पश्चिमी भाग
23	बाजार उत्तरी	उत्तर— सुखबीर के मकान से चिलकाना रोड वकील प्रधान के मकान तक का दक्षिणी भाग दक्षिण— गुरदयाल की दुकान से रेलवे रोड तिराहे तक का उत्तरी भाग पश्चिम— सुखबीर के मकान से गुरदयाल की दुकान तक का पूर्वी भाग पूरब— चिलकाना तिराहे से वकील प्रधान के मकान तक का पश्चिमी भाग
24	कानूनगोयान उत्तरी	उत्तर— राजेन्द्र जैन की दुकान से जामा मस्जिद चौक तक का दक्षिणी भाग दक्षिण—रमेश कश्यप के मकान से होते हुए आशाराम के मकान तक का उत्तरी भाग पश्चिम— रमेश कश्यप के मकान से आत्माराम प्रजापति के मकान तक का पूर्वी भाग पूरब— आशाराम के मकान से राजेन्द्र जैन की दुकान तक का पश्चिमी भाग
25	केशव विहार	उत्तर— स० महेन्द्र की दुकान से मंगू की दुकान को होते हुए कमल कपडे की दुकान तक का दक्षिण भाग दक्षिण— अजय जैन के मकान से सुमन्त प्रसाद के मकान तक का उत्तरी भाग पश्चिम— स० महेन्द्र की दुकान से वैद्य गौतम की दुकान से होते अश्वनी सर्राफ से होते हुए सुमन्त प्रसाद के मकान तक का पूर्वी भाग पूरब— अजय जैन के मकान से कमल कपडे वाले की दुकान तक का पश्चिमी भाग

आज्ञा से,  
अमृत अभिजात,  
प्रमुख सचिव।

IN the pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 3159/ IX-1-2022-5 Pari.-22, dated October 17, 2022 :

No. 3159 /IX-1-2022-5 Pari.-22

Dated Lucknow, October 17, 2022

IN exercise of the powers under section 11-B of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no. 2 of 1916), the Governor, after considering objections received in pursuance of the order published in the *Gazette vide* notification no. 1286/ IX-1-2022-5 Pari.-22, dated June 30, 2022 under sub-section (2) of the said section, is pleased to divide the municipal area of Nagar Palika Parishad Sarsawa, district Saharanpur into 25 Wards as mentioned in Column-2 of the Schedule below. The extent of every ward shall be such as mentioned against it in Column-3 of the said Schedule.

## SCHEDULE

## Nagar Palika Parishad Sarsawa, District Saharanpur

Ward No.	Name of Wards	Extent of Ward
1	2	3
1	Mahadev Nagar East	Northern- Talab last end part to Anuj Medical Southern Part Southern- Valmiki Bizaram ki Gali to Gov. Store Northern Part Western- Perbhu Market to Bizaram Valmiki gali Eastern Part Eastern- Mangat Ram house to Western part
2	Mahadev Nagar Midle East	Northern- Mata wali puliya to holi chowk Saharanpur road South Part Southern- Janak shop to Pradeep house North Part Western- Holi chowk to Janak shop East Part Eastern- Mata wali puliya to Perdeep house West part
3	Ambedkar Nagar Norten-East	Northern- Premkhana House to Manjur Southern Part Southern- Rao Inam House to Inam Northern Part Western – Dr. Balber Shop to Hafiz Sipai House Eastern Part Eastern- Fattu House to Subhash Valmiki House to Ravidass Dharmshala Western Part
4	Ambedkar Nagar South	Northern- Ravidass Temple to Mohlu House Southern Part Southern – Bankhandi Northern Part Western- Chanter Bhan House to Harizan Chowk to Ward 1 Part of Eastern Part Eaestern- Bankhandi to Ravidass Temple to Nakur Road Western Part
5	Bazar South	Northern- Mata wali puliya to Shyamlal Nagar South Part Southern- Osodham to Zandu house to Palika pump 2 North Part Western- Mata wali puliya to pump no 2 East Part Eastern- Shyam Lal nagar to Bharmkumari Aasram to Osodham West Part
6	Mahadev Nagar South	Northern- Saidpura chowk to Saidpura corsing to Southern Part Southern- Nakur Road to Nathiram House to Northern Part Western- Nakur Road to Saidpura Corsing Eestern part Eastern – Saidpura Chowk to Nakur Road Western Part
7	Mahadev Nagar West	Northern- Maszid shop to Satish Maheswari house South Part Southern- Amarnath house to Sabeer house to Valmiki Temple North Part Western- Satish Maheswri house to Amarnath house East Part Eastern- Maszid shop to Valmiki Temple West Part
8	Ambedkar Nagar West	Northern- Gov. samiti to Rao Farukh shop South part Sourthern- Yusuf Ansari to New M.T.S school North Part Western- Gov. Samiti to Yusuf Ansari house East part Eastern- Rao Farukh shop to New M.T.S School West part
9	Bazar East	Northern- Kanvarpal Shop to Saverriya Colony South Part Southern- Bala ji Colony to Railway road Crossing North Part Western- Railway road Crossing to Kanvarpal Shop East Part Eastern- Saverriya Colony to Bala ji Colony West Part
10	Bazar Midlle	Northern- Raman Chauhan house to Khala Puliya South Part Southern- Raju shop to Ashok Maheshwari to Rajkumar Saini house North Part Western- Ashok Maheshwari shop to Rajkumar Saini to Khale ki Puliya East part Eastern- Raju shop to Kalara Bakari to Mangu Ram house to Raman Chauhan West part
11	Bazar west	Northern- Samshan Gat road to last end South Part Southern- Govt. Hospital to bus stand to Vishal Aata chakki North part Western- Vishal Aata chakki to Chenderrup to temple East Part Eastern- Bus stand Ambala Road to Cinema road to Samsan Ghat West Part

Ward No.	Name of Wards	Extent of Ward
1	2	3
12	Govind Nagar North	Northern- Asha Ram Jain baag to Sirohi palace South part Southern- Hazra Road to Khala to New Basti to Hazra Chowk North Part Western- Hazra Road to Khala to Sirohi Palace East part Eastern- Hazara chowk to Shaji house to Asha Ram Jain baag West part
13	Uttam Vihar	Northern- Salim house to Rikiram house South Part Southern- Sanjay house to Amaranth house North part Western- Sanjay house to Rikiram house East part Eastern- Amarnath house to Salim shop West part
14	Bazar Midlle East	Northern- Luxman shop to Nakur Raod chowk South part Southern- Padhano ke kuae to Mahendure shop North Part Western- Luxman shop to Padhano ke kuae East part Eastern- Mahendure shop to Thana West part
15	Mirdhan West	Northern- Railu house to Lillu house South part Southern- Railu House to Raipur Road North part Western- Railu house North part to Tilla Raipur road East part Eastern- Palika pump to Lillu house West part
16	Bazar Midlle South	Northern- Samsan Ghath Road to East Vividh nagar Colony South part Southern- D. C. Jain corner to Shivram house North part Western- D. C. jain Corner to Samsan Ghath Road East part Eastern- Shivram house to Vivdh nagar Colony West part
17	Bazar South West	Northern- Amabla road Transfarmer to Jain Atti Bhawan Crossing South part Southern- Ramesh Parjapati house to Krishanlal house to Dinesh Jain shop North part Western- Ramesh Parjapati house to Madanlal shop to Transfarmer chowk East part Eastern- Dinesh Jain shop to Jain Atti Bhawan Crossing West part
18	Pargati Vihar North	Northern- Kureshi Road to Asgar Chchu house South part Southern- Nathiram Gaderiya house to Asgar Chchu North part Western- Asgar Chchu house to Tilla Road East part Eastern- Palika pump Road to Rao Farukh Shop to Kureshi Crossing West part
19	Kanungoyan	Northern- Asharam house to Arya Temple South part Southern- Nazar house to chowk to Kanya Padhsala North part Western- Aatam Ram house to Nazar house East part Eastern- Purve Kanya Padhsala to Firuzilal house West part
20	Hazara	Northern- Jama Masid chowk to Hazara Road to Khala South part Southern- Tilla Road East to Dhulapra Molvee North part Western- Dhulapra Molvee Gali North khale East part Eastern- Jama Masid to Tilla Road south part to west part
21	Mirdhan East	Northern- Purve Kanya Padhsala to Kureshi Crossing South part Southern- Rao Farukh Shop to Kureshi road Crossing North part Western- Rao Farukh Shop to Kureshi road Crossing East part Eastern- Harizanan Crossing to Purve Kanya Padhsala Crossing West part

Ward No.	Name of Wards	Extent of Ward
1	2	3
22	Govind Nagar South	Northern- Amabla road Transformar to Hazara road crossing South part Southern- Kasmirilal house to Hazara Chowk North part Western- Hazara Chowk to Amabla Road East part Eastern- Kashmiri house to Amabla road Transformar West part
23	Bazar North	Northern- Sukhbeer house to Chilkhana road Vakil Pradhan house South part Southern- Gurudhayal shop to Railway road Crossing North part Western- Sukhbeer house to Gurudhayal shop East part Eastern- Chilkana tirha to Vakil Pradhan house West part
24	Kanungoyan North	Northern- Rajender Jain shop to Jama Masjid chowk South part Southern- Ramesh Kashyap house Asharam House North part Western- Ramesh Kashyap to Aatmaram Parjapati house East part Eastern- Asharam Jain house to Rajender Jain shop West part
25	Keshav Vihar	Northern- Sardar Mahender shop to Mangu shop to Kamal Clouth shop South part Southern- Ajay Jain house to Sumant Jain house North part Western- Sardar Mahender shop to Gotam Rishi shop to Asvni shop to Sumant Jain house East part Eastern- Ajay Jain house to Kamal Cloth shop West part

By order,  
AMRIT ABHIJAT,  
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 775 राजपत्र-2022-(1177)-599+50=649 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।